



सीएसआईआर – केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान
गीजुभाई बधेका मार्ग, भावनगर – 364 002 (गुजरात)
CSIR – CENTRAL SALT & MARINE CHEMICALS RESEARCH INSTITUTE
GIJUBHAI BADHEKA MARG, BHAVNAGAR – 364 002 (GUJARAT)

आवेदन प्रपत्र

FORM OF APPLICATION

सूचना/Instructions:

1. अभ्यर्थी इस प्रपत्र को स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरे | To be filled in by the candidate in his/her own handwriting in BLOCK LETTERS.
2. सभी कॉलम उचित रूप से भरे जाएँ | All the columns should be properly filled in.
3. अपूर्ण आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा | Incomplete application form will be summarily rejected.

<p><u>कार्यालयीन उपयोग हेतु/For Office Use only</u> आवेदनपत्र क्रमांक/Application number: प्राप्ति की तिथि/Date of receipt: हस्ताक्षर/Signature:</p>	<p>आवेदक अपनी नवीनतम हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज़ की फोटो यहाँ पर चिपकाएँ एवं उस पर अपने हस्ताक्षर करें Affix here your recent signed Passport size Photograph and sign across it.</p>
<p><u>उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है/To be filled in by candidate</u> विज्ञापन क्रमांक/Advertisement number: आवेदित पदनाम/Post Applied for: पद कोड/Post Code:</p>	
<p><u>आवेदन शुल्क का विवरण/Details of application fees</u> शुल्क अदायगी से छूट/Whether exempted: Yes/No डी.डी. क्रमांक व तिथि/DD No. & Date: जारी करने वाला बैंक/Issuing Bank:</p>	

<p>1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) [महिला अभ्यर्थी अपने नाम से पहले “कुमारी” अथवा “श्रीमती” अवश्य लिखें।] Full Name in Block Letters [In case of female candidates, appropriate prefix ‘Miss’ or ‘Mrs.’ should be indicated.]</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. पिता/पति का नाम/Father/Husband's name	
3. जन्मतिथि/Date of Birth [DD/MM/YYYY फॉर्मेट में]	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. जन्मस्थल/Place of Birth	
5. लिंग/Gender (स्त्री/पुरुष/ट्रांसजेंडर) (Female/Male/Transgender)	
6. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्र/Age as on the closing date [YY/MM/DD फॉर्मेट में]	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7. पता/Address: (अ) पत्राचार हेतु/Correspondence:	मोबाइल नंबर: ई - मेल:
(ब) स्थायी/Permanent:	मोबाइल नंबर: ई - मेल:
8. क्या आप जन्म अथवा अधिवास से भारत के नागरिक हैं?/Are you a citizen of India by birth or by domicile?	
9. उस राज्य का नाम जिसके आप निवासी हैं।/Name of the state to which you belong.	
10. वर्ग/श्रेणी [कृपया अपने दावे के समर्थन में उचित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न कीजिए।]/Category [Please attach self-attested copy of the certificate from the Competent Authority in support of your claim.]	a) अनुसूचित जाति/Scheduled Caste <input type="radio"/> b) अनुसूचित जनजाति/Scheduled Tribe <input type="radio"/> c) अन्य पिछड़ा वर्ग/Other Backward Class <input type="radio"/> d) सामान्य/General <input type="radio"/> e) शा.वि./Persons with disabilities <input type="radio"/> f) आ.अ.व./EWS <input type="radio"/>

<p>11. क्या आप सीएसएमसीआरआई/सीएसआईआर के किसी भी कर्मचारी से सम्बंधित है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिए।सम्बन्धियों में पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/सास-ससुर/बहु इत्यादि एवं ऐसे सारे रिश्ते शामिल होंगे जिन्हें ब्लड रिलेशन कहा जा सकता है। Are you related to any CSMCRI/CSIR employees? If yes, please give details. Relations would include Wife/Husband/Son/Daughter/In-laws/Daughter-in-law etc. and all those who can be termed as blood relatives.</p>	<p>नाम Name:</p> <p>धारित पद Post Held:</p> <p>प्रयोगशाला का नाम Name of Laboratory:</p> <p>सम्बन्ध Relation:</p>				
<p>12. क्या आप टंकण जानते है? यदि हाँ, तो अपनी गति दर्शाइए।/Do you know typing? If yes, please mention your speed.</p>	<p>टंकण गति [शब्द प्रति मिनट]/Typing Speed [In words per minute]</p> <p>इंग्लिश/English:</p> <p>हिन्दी/Hindi:</p>				
<p>13. शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताओं का संपूर्ण ब्यौरा(दसवीं कक्षा से)/Details of your Educational Qualifications (starting from tenth standard).</p>					
<p>उत्तीर्ण परीक्षा/ Examination passed</p>	<p>श्रेणी/ग्रेड तथा अंको की प्रतिशतता/ Class/ Grade with percentage</p>	<p>वर्ष जिसमें उत्तीर्ण हुए है/Year of passing</p>	<p>समयावधि/ Duration</p>	<p>बोर्ड/विविधविद्यालय/ Board/University</p>	<p>विषय/ Subjects</p>

14. क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? यदि हाँ, तो डिग्री/डिप्लोमा आदि इंगित करें।/Do you have the knowledge of Computer? If yes, please mention the Degree/Diploma obtained.

15. रोजगार का ब्यौरा (कालक्रम में)/Details of employment (In chronological order)

संगठन/ Organization	धारित पद/Post Held	वेतनमान/Pay Scale	समयावधि/Duration			कार्यों की प्रकृति/Nature of duties.
			से/From	तक/To	जोड़/ Total	

16. संलग्नकों की सूची/List of enclosures

घोषणा/Declaration

मैंएतद्वारा घोषणा करती हूँ/ करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण एवं उचित है और यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना गलत अथवा अनुचित पाई जाती है अथवा चयन से पूर्व अथवा बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है तो मेरी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।/ I _____

hereby declare that the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief and in the event of any of the information being found false or incorrect or any ineligibility being detected before or after the selection, my candidature is liable to be cancelled and action initiated against me.

स्थल/Place:

हस्ताक्षर/Signature:

दिनांक/Date:

पूरा नाम/Full Name:

सेवारत अभ्यर्थी अपने वर्तमान नियोक्ता से निम्नांकित पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करवाएँ।

Candidate already employed should get the following endorsement signed by her/his present employer.

विभाग/कार्यालय प्रधान द्वारा पृष्ठांकन

Endorsement by the Head of the Department or Office.

पृष्ठांकन क्रमांक/Endorsement Number	
हस्ताक्षर /Signature	
पूरा नाम/Full Name	
पदनाम/Designation	
जिस कार्यालय से संलग्न है उसका नाम व पता/Name & Address of the Office to which attached	
मोहर/Rubber Stamp	

सार पत्र
Synopsis Sheet

(अभ्यर्थी पूर्ण सूचना दें।)
(Candidate should give complete information)

अभ्यर्थी का पूरा नाम	
वर्ग/श्रेणी	

जन्मतिथि तथा निर्धारित तारीख को (कट ऑफ डेट) आयु DOB & age as on cutoff date	अर्हताएँ+ Qualifications+	अनुभव/Experience				
		धारित पद Position held	संगठन का नाम Name of Organization	से From	तक To	अवधि* Duration*
(1)	(2)	(3)				
(कुल अनुभव - वर्षों, महीनों व दिनों में/Total exp. in yrs., months & days)						

+ अर्हताओं का स्तर यथा X, XII बी.एस.सी./बीए/एमए/एमटेक इत्यादि, श्रेणी एवं अंकों की प्रतिशतता तथा वह वर्ष जिसमें उत्तीर्ण हुए हों इंगित करें।

+Indicate the level of qualification viz. X, XII, B.Sc./B.A./M.A./M. Tech. etc., Division and % age of marks and year of passing.

* वर्ष, माह एवं दिवसों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करें।

* Mention specifically in number of years, months & days.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
Signature of candidate